

कुछ ऐसी चीजें, जिन्हें करने में सामान्य ढंग से सुन पाने वाले बच्चे को सक्षम होना चाहिए :

जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम

- अचानक से, जोरदार आवाज होने पर पलकें झपकाता है या उछलता है
- जब उससे बोला जाता है तो शांत हो जाता है या मुस्कराता है
- “ओह”, “आह” जैसी आवाजें निकालता है

3 से 6 महीने की उम

- आंखों से आवाज की ओर देखने की कोशिश करता है
- बड़बड़ाना (“बाबा,” “मामा,” “गागा”) शुरू कर देता
- बहुत सारी आवाजें निकालता है, चिल्लाता है और दंभी हंसी हंसता है

6 से 9 महीने की उम

- जोरदार आवाज की ओर सिर घुमाता है
- “नहीं-नहीं” और “बाय-बाय” को समझता है
- “बाबा”, “मामा”, “गागा” जैसी बड़बड़हट करता है

9 से 12 महीने की उम

- आपके द्वार बोले गए साधारण शब्दों और आवाजों को दुहराता है
- “मामा” या “दादा” जैसे शब्दों को ठीक से उपयोग करता है
- गाना गाने पर या संगीत पर प्रतिक्रिया देता है
- पूछे जाने पर पसंदीदा खिलौने और वस्तुओं की ओर इशारा करता है

अगर आपके पास अपने बच्चे की सुनने की क्षमता के बारे में या इस सूची के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें।

जानकारी मुझे और कहां मिल सकती है?

न्यू जर्सी स्वास्थ्य विभाग
जल्दी सुनने से संबंधित समस्या का पता लगाना
और हस्तक्षेप कार्यक्रम
पी.ओ. बॉक्स 364 • ट्रेंटन, NJ 08625-0364

(609) 292-5676 (केवल बात)
ehdi@doh.nj.gov
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/
www.hearinghelp4kids.nj.gov



आपके बच्चे को बधिरपन की दूसरी जांच की जरूरत है



फिलिप डी. वार्ड, ओलिवर, लैंग्वेज एंड हियरिंग विवर

ज्यूडिथ बीएसएन, एमए कमिश्नर



कुछ बच्चों को बधिरपन की दूसरी जांच की जरूरत क्यों होती है?

- कुछ बच्चों को दूसरी जांच की जरूरत हो सकती है क्योंकि:
 - कान में तरल का होना
 - बच्चा बहुत हिल रहा था
 - जांच कक्ष में शोर का होना
 - बच्चे में सुनने की क्षमता नहीं थी
- जिन बच्चों को दूसरी जांच की जरूरत होती है, उनमें से अधिकतर की सुनने की क्षमता सामान्य होती है। कुछ में सुनने की क्षमता नहीं होगी।

जितना जल्दी हो सके बधिरपन की दूसरी जांच क्यों जरूरी है?

- क्या बच्चे को सुनने में समस्या है यह जांचने का एकमात्र तरीका जांच करना है।
- बधिरपन का पता जितनी जल्दी लग जाएगा, बच्चे के लिए उतना ही बेहतर होगा।
- अगर आपके बच्चे में बधिरपन है, तो हम बहुत सारे तरीकों से आपके बच्चे की मदद कर सकते हैं।

सुनने की समस्या का जल्दी पता लगा लेने से आपके बच्चे की जिंदगी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।



मेरी विजिट के दौरान क्या होगा?

- एक विशेषज्ञ(एक ऑडियोलॉजिस्ट) आपके बच्चे की जांच करेगा और परिणामों के बारे में आपको बताएगा और साथ ही अगर और जांचों की जरूरत है तो उसके बारे में भी।
- जांच सुरक्षित और दर्दरहित है।
- कुछ बच्चों को पूरे जांच समूह की जरूरत होगी, तो आपके बच्चे को फिर से लाने को कहा जा सकता है।
- अगर आपके बच्चे को और जांचों की जरूरत है, तो जितना जल्दी हो सके उन्हें करना लें।

क्या कोई नवजात बच्चा जांच में सफल होता है फिर भी उसमें बधिरपन होता है?

- हां, कुछ बच्चे पहली जांच में सफल होने लायक अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन बाद में उनकी सुनने की क्षमता चली जाती है, जिसके कारण निम्न हैं:
 - कोई बीमारी
 - कुछ दवाएं
 - कुछ चोटें
 - सुनने की क्षमता न होने का पारिवारिक इतिहास
- **जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है उसके न सुन पाने के संकेतों पर नजर रखें।**
- पृष्ठ कवर पर दी जानकारी का प्रयोग एक मार्गदर्शिका के तौर पर करें।
- अगर आपके पास बच्चों के सुनने से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करें।

आपके बच्चे की अगली जांच के लिए एक एपाइंनमेंट तय की गई है:

आपके बच्चे का नाम

ऑडियोलॉजिस्ट का नाम

समय और दिनांक

स्थान

फोन नंबर

अगर आपको फिर से कार्यक्रम निर्धारित करने की जरूरत है, कृपया कॉल करें।